



दिनांक- 15.09.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबकंठ पुलिस ने 01 किलो 600 ग्राम हरे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थों के तशकर व शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.09.2020 को थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री आनन्द कुमार द्वारा उ0नि0 सुमित नारायण व उ0नि0 सचिन कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी जब मय हमराहियों के साथ अभियुक्त चतुर सिंह बुन्देला पुत्र स्व0 उत्तम सिंह उम्र करीब 55 वर्ष को ग्राम खिरियाखुर्द स्कूल की मोड के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 139/2020 धारा 8/20 NDPS Act. पंजीकृत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

चतुर सिंह बुन्देला पुत्र स्व0 उत्तम सिंह उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम खिरिया खुर्द, थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाला पुलिस बल:-

1. उ0नि0 सचिन कुमार
2. उ0नि0 सुमित नारायण
3. कां0 अरुण कुमार
4. कां0 राजेश कुमार।





दिनांक- 15.09.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध शस्त्र/शस्त्र धारक अपराधियों के विरुद्ध धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को मुखबिर की सूचना पर एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी जब अभियुक्त सुमिरत राजपूत पुत्र भगवत राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष को नगराडांग मोड के पास से ग्राम इन्द्रहटा के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 150/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी ।

अभियुक्त का विवरण:-

सुमिरत राजपूत पुत्र भगवत राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष निवासी सलैयामाफ, थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम

- (1) उ0नि0 हरिश्चन्द्र मिश्रा
- (2) उ0नि0 अश्वनी कुमार सिंह
- (3) कां0 राममिलन राजपूत थाना अजनर महोबा ।





दिनांक- 15.09.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग व लोगो को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक

बाहर निकलने पर **मास्क लगाने व 02 गज की दूरी** बनाये रखने को कहा गया ।



आज दिनांक 15.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानो द्वारा पैदल गस्त करके होटल/ढाबा तथा संदिग्ध व्यक्तियो/वाहनो की चेकिंग की गई । पैदल गस्त के दौरान लोगो को **कोविड-19** संक्रमण के बारे में बताया गया तथा जागरूक भी किया गया । लोगो को घरो से



दिनांक- 15.09.2020

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 14050/-रु० का जुर्माना एवं यातायात नियमों के तहत किये गये ई-चालान

आज दिनांक 15.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन** पर चालान/जुर्माना किया गया। समस्त थानों द्वारा **कोविड-19 के तहत 120 व्यक्तियों से 14050/-रु०** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर **02 ई-चालान** किया गया।

इस दौरान **नोवल कोरोना वायरस** के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए अपने घरों में सुरक्षित रहने तथा **मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी)** बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

